



यार्ड की देखरेख, स्ट्रीट पार्किंग और शोर:

सिटी निवासियों को याद दिलाती है कि वे इस वसंत, ब्रैम्पटन को हरा-भरा, स्वस्थ और सुरक्षित रखें

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 मई, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन निवासियों को याद दिलाती है कि वे साफ और सुरक्षित शहर बनाए रखने में मदद के लिए, पूरा वर्ष निम्नलिखित बाइ-लॉज के महत्व को समझें। इन स्टैंडर्ड्स को कायम रखने में प्रत्येक निवासी अपनी भूमिका निभा सकता है।

इस वसंत, अपनी भूमिका निभाएं और मिलनसार पड़ोसी बनें। निवासियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बाइ-लॉज को ध्यान में रखें:

- [अपने यार्ड की देखरेख करें \(Maintain your yard\)](#)। यदि आपके यार्ड की घास साँकर गेंद से लंबी हो गई है, तो अब इसे काटने का समय है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्लिपिंग्स की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर से अधिक न हो, क्लिपिंग्स को हटाकर, घास और जंगली घास को नियमित रूप से काटना चाहिए।
- [साइडवॉक्स को साफ रखें \(Keep sidewalks clear\)](#)। जब वाहन साइडवॉक से बाहर निकले हुए होते हैं, तो वे दूसरों के लिए रुकावट बन सकते हैं और साइडवॉक्स को असुरक्षित बना सकते हैं।
- सिटी के [ट्रैफिक एंड पार्किंग बाइ-लॉ \(Traffic and Parking By-law\)](#) के अंतर्गत, सुबह 2 बजे और 6 बजे के बीच या लगातार तीन घंटों से अधिक समय के लिए, स्ट्रीट पर वाहनों की पार्किंग नहीं की जा सकती। सिटी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में, प्रति वाहन लाइसेंस प्लेट के लिए 14 दिनों तक स्ट्रीट पर पार्किंग करने के लिए पार्किंग विमर्श के लिए निवेदन स्वीकार करती है। पार्किंग विमर्श, तीन घंटों से अधिक और/या सुबह 2 बजे और 6 बजे के बीच से अधिक समय के लिए वाहन पार्किंग की अनुमति देता है। यह मनोरंजन संबंधी प्रयोग के लिए बनाए गए बड़े वाहनों को भी स्ट्रीट पर पार्किंग करने की अनुमति देता है। पार्किंग विमर्श का निवेदन [यहां \(here\)](#) किया जा सकता है।
- जब निवासी सुरक्षित रूप से घर से बाहर अधिक समय बिताते हैं, तो उन्हें शोर कम रखने का अनुरोध किया जाता है। सिटी के [नॉयज बाइ-लॉ \(Noise By-law\)](#) के अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति को इतना शोर पैदा करने की अनुमति नहीं है, जिससे ब्रैम्पटन के दूसरे निवासियों को परेशानी होने की संभावना हो।

सिटी के बाइ-लॉज के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca